



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 37] नई दिल्ली, दिसम्बर 11—दिसम्बर 17, 2016, शनिवार/अग्रहायण 20—अग्रहायण 26, 1938  
No. 37] NEW DELHI, DECEMBER 11—DECEMBER 17, 2016, SATURDAY/AGRAHAYANA 20—AGRAHAYANA 26, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं  
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

## भारत निर्वाचन आयोग आदेश

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2016

आ.अ. 82.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2015 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :—

## सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम व पता	निर्हरता का कारण
1	2	3	4	5
1	बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2015	9—सिकटा	लालगुरद मियां ग्राम—खम्हीया, पो0—मैनाटॉड, थाना—इनरवा, जिला—प0 चम्पारण, बिहार।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2	—वही—	34—बाबूबरही	मीना देवी ग्राम—सोनमती, पो0—पथराही, थाना—बाबूबरही, जिला—मधुबनी, बिहार।	—वही—
3	—वही—	35—बिस्फी,	गुलाब कुमार साह ग्राम—लहरियागंज, वार्ड नं0—1, मधुबनी, जिला—मधुबनी, बिहार।	—वही—
4	—वही—	—वही—	अल्पना कुमारी सुभाष चौक, जयनगर बस्ती, थाना—जयनगर, जिला— मधुबनी, बिहार।	—वही—
5	—वही—	—वही—	परवेज हसन ग्राम+पो0—परसौनी, भाया—बेनीपट्टी, जिला— मधुबनी, बिहार।	—वही—
6	—वही—	109—दरौंदा	दीपक कुमार मिश्र ग्राम—टडवां, पोस्ट—टडवां, परसिया, थाना— एम0एच0 नगर, जिला—सिवान, बिहार।	—वही—
7	—वही—	111—गोरैयाकोठी	उमाशंकर तिवारी ग्राम—कपड़ीपुर, पो0— नबीगंज, थाना—बसंतपुर, जिला—सिवान, बिहार।	—वही—

[सं. 76/आदेश/ पूर्व अनु. -1/ बिहार- वि. स. /2015]

आदेश से,

सुमित मुखर्जी, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
ORDERNew Delhi, the 7<sup>th</sup> December, 2016

**O. N. 82.**—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly 2015 from the State of Bihar as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column(5) of the said Table;

And Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission, or after considering the representation, if any made by them, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, pursuant of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column(4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order:-

TABLE

S.No.	Particulars of Election	Number & Name of the Constituency	Name & Address of the Candidate	Reason of disqualification
1	2	3	4	5
1	General Election to the legislative Assembly 2015 from the State of Bihar	9-Sikta	Lalgurad Miyan At- khamhiya, Post- Mainatand, P.S- Inarwa, District- West Champaran. Bihar.	Failure to lodge any account of Election expenses
2	-do-	34-Babubarhi	Meena Devi Vill-Sonmatti, P.O- Pathrahi, P.S. Babubarhi, Dist.- Madhubani, Bihar.	-do-
3	-do-	35-Bisfi	Gulab Kumar Sah Vill.-Laheriya Ganj, Ward No.1, Madhubani, Distt. Madhubani. Bihar.	-do-
4	-do-	-do-	Alpana Kumari Subhash Chowk, Jay Nagar Basti, P.S- Jay Nagar, Distt.- Madhubani Bihar.	-do-
5	-do-	-do-	Parwez Hassan Vill+Post.- Parsauni, P.S-Bisfi, Distt.-Madhubani Bihar.	-do-
6	-do-	109-Daraunda	Deepak Kumar Mishra Vill-Tarwan, Post- Tarwan Parsia P.S.- M.H. Nagar. Distt.- Siwan. Bihar.	-do-
7	-do-	111-Goreyakothi	Umashankar Tiwari Vill-Kapripur, Po- Nabigangj. Ps.-Basantpur Distt- Siwan. Bihar.	-do-

[No. 76/ORDER/ES-1/BR-LA/2015]

By Order,

SUMIT MUKHERJEE, Secy.

**आदेश**

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2016

**आ.अ. 83.**—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2014 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिंत घोषित करता है :-

**सारणी**

क्रम सं०	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम व पता	निर्हरता का कारण
1	2	3	4	5
1	छत्तीसगढ़ लोक सभा का साधारण निर्वाचन, 2014	5-बिलासपुर	लखनलाल साहू, महाराणा प्रताप वार्ड, पेण्डाराकापा, मुंगेली, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
2	-वही-	6-राजनांदगांव	आनंद साहू, मजगांव, चिमरारोड़, पिन नं० 491995 कवर्धा, जिला-कबीरधाम, छत्तीसगढ़ ।	-वही-
3	-वही-	-वही-	संतोष चंद्राकर, ग्राम-पेंडीकला, पोस्ट-कुण्डा तहसील-पंडरिया, जिला-कबीरधाम, छत्तीसगढ़ ।	-वही-
4	-वही-	-वही-	वामनराव बागड़े, 358 सुन्दर नगर, रायपुर, पोस्ट-सुन्दर नगर थाना, उपाध्याय नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।	-वही-
5	-वही-	8-रायपुर	रामगोपाल वर्मा, सिंधीटार पो०आ०-पुरगांव, विकासखण्ड-बिलाईगढ़ थाना-बिलाईगढ़ जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ ।	-वही-
6	-वही-	9-महासमुन्द	आभा पाण्डेय (गुडिया), प्रोफेसर कालोनी, गली नंबर 15 सेक्टर 3 रायपुर, छत्तीसगढ़ ।	-वही-
7	-वही-	-वही-	प्रीति ध्रुव, ग्राम हरदी, घोंच, तहसील पिथौरा, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ ।	-वही-
8	-वही-	-वही-	लक्ष्मण मस्तुरिया, सेक्टर-1, दुर्गा चौक, मकान नंबर, 160-प्रोफेसर कालोनी, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ ।	-वही-
9	-वही-	-वही-	चन्दुराम साहू, ग्राम-दुरुगपाली, तहसील-पिथौरा, छत्तीसगढ़ ।	-वही-

10	छत्तीसगढ़ लोक सभा का साधारण निर्वाचन, 2014	9-महासमुन्द	चन्द्रराम साहू, ग्राम टुण्डरा, पो0-टुण्डरा, जिला बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
11	-वही-	-वही-	चन्दू लाल साहू, ग्राम गढ़सिवनी, तहसील महासमुन्द, जिला-महासमुन्द, छत्तीसगढ़ ।	-वही-
12	-वही-	-वही-	चन्दूलाल साहू, ग्राम -भाटीगढ़, पो0भाटीगढ़, थाना मैनपुर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ ।	-वही-
13	-वही-	-वही-	चन्दूलाल साहू, तौलीडीह, तहसील भटगांव, जिला बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ ।	-वही-
14	-वही-	-वही-	चन्दूलाल साहू, मंजीठा तहसील आरंग, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।	-वही-
15	-वही-	-वही-	चन्दू लाल साहू, ग्राम गोइन्द्रा, पो0 गोइन्द्रा, थाना-पथरिया, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ ।	-वही-
16	-वही-	-वही-	चंदूलाल साहू, ग्राम टेमरी, तहसील धरसीवा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ ।	-वही-
17	-वही-	-वही-	मोतीलाल साहू, ग्राम बावली, तहसील पथरिया, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ ।	-वही-
18	-वही-	-वही-	मोतीलाल साहू, 295 ग, नया मंडल बाजार, गुडयारी, रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ ।	-वही-
19	-वही-	-वही-	सुखनन्दन देशकर, हरनादादर, पो0 घुंचापाली, तह0 बागबाहरा जिला-महासमुन्द, छत्तीसगढ़ ।	-वही-

[सं. 76/छ. ग. - लो. स./2014]

आदेश से,  
के. एन. भार, सचिव

**ORDER**New Delhi, the 8<sup>th</sup> December, 2016

**O.N. 83.**—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the House of People 2014 from the State of Chhattisgarh as specified in column (2) held from the constituency specified in column(3) against his/her name, has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column(5) of the said Table;

And Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission, or after considering the representation if any, made by them, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order:-

**TABLE**

S.No.	Particulars of Election	Number & Name of the Assembly Constituency	Name & Address of the Candidate	Reason of disqualification
1	2	3	4	5
1	General Election to the House of People 2014 from the State of Chhattisgarh	5-Bilaspur	Sh.Lakhan Lal Sahu Behind Satnam Bhawan, Daupara Distt. Mungeli, Chhattisgarh	Failure to lodge any account of election expenses
2	-do-	6-Rajnandgaon	Anand Sahu, Manjgaon, Chimra Road, Pin No.491995, Kawardha Distt.- Kabirdham, Chhattisgarh.	-do-
3	-do-	-do-	Santosh Chandrakar, Village-Pendrikala, Post-Kunda, Tahsil-Pandariya, Distt.-Kabirdham, Chhattisgarh.	-do-
4	-do-	-do-	Waman Rao Bagde, 358 Sundar Nagar, Raipur, Post-Sundar Nagar, Thana- Upadhyay Nagar, Raipur, Chhattisgarh.	-do-
5	-do-	8-Raipur	Ramgopal Verma, Sindhi Taar P.O.Purgaon, Tahsil- Bilaigarh, Thana-Bialigarh, Distt.- Baloda Bazar-Bharapara, Chhattisgarh.	-do-
6	-do-	9-Mahasamund	Abha Pandey Gudia Professor Colony, Gali No.15 Sector 3 Dist Raipur Chhattisgarh.	-do-
7	-do-	-do-	Preeti Dhruw, Vill.Hardi, P.O. Ghonch, Tahsil Pithora, Distt.Mahasamund, Chhattisgarh.	-do-
8	-do-	-do-	Lakshman Masturiya, Sector-1 Durga Chowk, House No. 160, Professor Colony, Raipur, Dist Raipur Chhattisgarh.	-do-
9	-do-	-do-	Chanduram Sahu, Vill.Durugpali, Tahsil Pithora, Distt.Mahasamund, Chhattisgarh.	-do-

10	General Election to the House of People 2014 from the State of Chhattisgarh	9-Mahasamund	Chandu Ram Sahu, Vill.Tundra, Post Tundra, Distt. Baloda-Bazar, Chhattisgarh	Failure to lodge any account of election expenses
11	-do-	-do-	Chandoo Lal Sahu, Vill.Gadsivani, Tahsil & Distt.Mahasamund, Chhattisgarh.	-do-
12	-do-	-do-	Chandu Lal Sahu, Vill.Bhatigadrh, Post-Bhatigarh, Tana Mainpur Distt.Gariyaband, Chhattisgarh.	-do-
13	-do-	-do-	Chandu Lal Sahu, Toulidih, Tahsil Bhatgoan, Distt.Baloda-Bazar, Chhattisgarh.	-do-
14	-do-	-do-	Chandu Lal Sahu, Manjitha, Tahsil Arang Distt. Raipur, Chhattisgarh.	-do-
15	-do-	-do-	Chandu Lal Sahu, Vill.& Post Goindra, Thana Pathria, Distt.Mungeli Chhattisgarh.	-do-
16	-do-	-do-	Chandu Lal Sahu, Vill.Temari, Tahsil Dharsiwa, Distt. Raipur, Chhattisgarh.	-do-
17	-do-	-do-	Motilal Sahu, Vill.-Bavli, Tahsil Pathria Distt.Mungeli0 Chhattisgarh.	-do-
18	-do-	-do-	Motilal Sahu, 295 G Naya Mandal Bazaar Gudiyari Raipur , Distt. Raipur, Chhattisgarh.	-do-
19	-do-	-do-	Sukhnandan Deshkar, Harnadadar Post, Ghunchapali, Tahsil Baghbahara Distt.Mahasamund, Chhattisgarh.	-do-

[No. 76/CG-HP/2014]

By Order,

K.N. BHAR, Secy.